

Nagari-Pracharini Granthmala Series No. 4-20

THE PRITHVÍRÁJ RÁSO

OF

CHAND BARDÁI,

EDITED

BY

Mohanlal Vishnulal Pandia, & Syam Sundar Das, B.A.


With the assistance of Kunwar Kanhaiya Ju.

CANTOS LXVI-LXVII

Hindustani Academy

Part No.

FILE NO.



महाकवि चंद बरदाई

रुत

पृथ्वीराजरासो

जिसको

मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और श्यामसुन्दरदास बी. ए. ने

कुँअर कन्हैया जू की सहायता से

सम्पादित किया ।

पर्व ६६-६७

PRINTED BY PT. BAIJNATH JIJJA, MANAGER, AT THE TARA PRINTING
WORKS, AND PUBLISHED BY THE NAGARI-PRACHARINI SABHA,
BENARES.

1911.

मूल्य १।]

Issued 5th August 1912.

[Price Rs.1/4.]